

प्रेस नोट

दीव में आयोजित हुई दो-दिवसीय हिन्दी कार्यशाला

दीव जिला समाहर्ता श्री हेमन्त कुमार के आदेश पर राजभाषा विभाग, दीव द्वारा 27 एवं 28 जून, 2018 को कर्मचारी वर्ग के लिए दो-दिवसीय हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में जिला प्रशासन के विविध कार्यालय से कुल 38 कर्मचारियों को नामित किया गया जिसमें लगभग तमाम कर्मचारियों ने बड़े ही उत्साह के साथ भाग लिया।

कार्यशाला के पहले दिन राजभाषा विभाग, दीव के सहायक निदेशक श्री अंतर्यामी परिडा ने कर्मचारियों को संघ की राजभाषा नीति, हिन्दी भाषा की ऐतिहासिकता, राजभाषा एवं राष्ट्रभाषा में अंतर, कार्यालयीन कामकाज में हिन्दी के प्रयोग तथा अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद आदि विषयों पर तथ्यपरक एवं विस्तृत जानकारियां दी।

वहीं 28 जून की कार्यशाला में राजभाषा विभाग, दीव के वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक श्री सुनील कुमार तिवारी का व्याख्यान हुआ। अपने व्याख्यान में श्री तिवारी ने साहित्यिक हिन्दी, आम बोलचाल की हिन्दी तथा कार्यालयीन हिन्दी की बारिकियों के बारे में कर्मचारियों को विस्तार से बताया। उन्होंने कार्यालयों में होनेवाले विविध प्रकार के पत्राचार जैसे कि परिपत्र, सूचना, आदेश एवं टिप्पण तथा अनुवाद व क्षेत्र के अनुसार अंग्रेजी शब्दों का हिन्दी में आदि विषयों पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला। इस दौरान कर्मचारियों ने बहुतेरे प्रश्न किए जिसका श्री तिवारी ने समुचित उत्तर दिया और कर्मचारी संतुष्ट नजर आये।

कार्यशाला के समापन अवसर पर “कर्मचारी अपना कार्यालयीन कामकाज किस प्रकार बेहतर तरीके से कर सकते हैं” - इस विषय पर विस्तार से विचार-विमर्श हुआ। कई कर्मचारियों ने इस दौरान अपने-अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि इस प्रकार की कार्यशालाएं नियमित रूप से होनी चाहिए। इस प्रकार की कार्यशालाओं से कर्मचारी निश्चित रूप से लाभान्वित होते हैं। अंत में श्री अंतर्यामी परिडा द्वारा सभी का आभार व्यक्त करते हुए कार्यशाला संपन्न होने की घोषणा की गई।

